



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102024-258020  
CG-DL-E-17102024-258020

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4178]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 16, 2024/आश्विन 24, 1946

No. 4178]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2024/ASVINA 24, 1946

okf.kT; , oa m | kx ea=ky;

¼okf.kT; foHkx½

¼fon's k 0; ki kj egkfun's kky; ½

vf/kl |puk

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2024

l a 36@2024&25

fo"k; % vkbVhl h ¼, p, l ½ 2022 dh vuq |ph&I ¼vk; kr uhfr½ ds v/; k; &96 ds l hVh, p 9613 ds rgr 'kkfey  
किए गए लाइटर के भागों की आयात नीति में संशोधन।

dk-vk- 4542¼v½—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ  
पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और धारा 5 के द्वारा प्रदत्त पक्तियों का प्रयोग करते  
हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय-96 के तहत शामिल किए गए  
निम्नलिखित एचएस कोडों के लिए आयात नीति को निम्नानुसार संशोधित करती है:-

, p, l dkM	Ekn fooj .k	vk; kr uhfr	ekStink uhfrxr 'krZ	संशोधित नीतिगत शर्त
96139000	—भाग	मुक्त	—	तथापि पॉकेट लाइटर्स गैस ईंधन से भरे हुए, पुनः भरने योग्य नहीं अथवा पुनः भरने योग्य के भागों का आयात ¼ifrcf/kr^ होगा।

2- व/क/पुक् द/क/ह/को %

एचएस कोडो 96139000 के तहत पॉकेट लाइटर्स गैस ईंधन से भरे हुए, पुनः भरने योग्य नहीं अथवा पुनः भरने योग्य (सिगरेट लाइटर्स) के भागों का आयात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/93/180/विविध-39/एम-20/पीसी II (ख)/ई-22950]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2024

No. 36/2024-25

**Subject: Amendment in import policy of parts of lighter Covered under CTH 9613 of Chapter 96 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.**

**S.O. 4542(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government amends the import policy for the following HS Codes covered under Chapter 96 of the ITC (HS), 2022, Schedule -I (Import Policy) as under:

HS codes	Item Description	Import Policy	Existing Policy condition	Revised Policy Condition
96139000	-Parts	Free	-	However, import of Parts of pocket lighters, gas fuelled, non-refillable or refillable shall be ' <b>Restricted</b> '

### 2. Effect of the Notification:

Import of Parts of pocket lighters, gas fuelled, non-refillable or refillable lighters (Cigarette lighters) under HS codes 96139000, is 'Restricted', with immediate effect.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

[F. No. 01/93/180/Misc.39/AM-20/PC.II (B)/E-22950]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.